

योग दिवस

21 जून 2019

योग दिवस की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पत्र 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

इसी परंपरा को निरंतर रखते हुए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून 2019 को संस्था की उपप्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं समस्त छात्रों द्वारा 21 जून को योग अभ्यास करके योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें शारीरिकयोग गतिविधियों को करते हुए योग दिवस को आहुत किया जाता है। योग दिवस के संयोजक डॉ. अशोक पलसानिया के नेतृत्व में आयोजित किया जाता रहा है।



समन्वयक

IOAC
Prof. Shalini Saxena
Convener-IOAC
Govt. Maharaj Acharya Sanskrit
College, Jaipur (Raj.) 302015

योग दिवस

21 जून 2021

योग दिवस की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पत्र 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

इसी परंपरा को निरंतर रखते हुए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून 2021 को संस्था की उपप्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं समस्त छात्रों द्वारा 21 जून को योग अभ्यास करके योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें शारीरिकयोग गतिविधियों को करते हुए योग दिवस को आहुत किया जाता है। योग दिवस के संयोजक डॉ. अशोक पलसानिया के नेतृत्व में आयोजित किया जाता रहा है।



समन्वयक

IQAC

Prof. Shalini Saxena
Convener-IQAC
Govt. Maharaj Acharya Sanskrit
College, Jaipur (Raj.) 302015

योग दिवस

21 जून 2022

योग दिवस की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पत्र 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

इसी परंपरा को निरंतर रखते हुए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून 2022 को संस्था की उपप्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं समस्त छात्रों द्वारा 21 जून को योग अभ्यास करके योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें शारीरिकयोग गतिविधियों को करते हुए योग दिवस को आहुत किया जाता है। योग दिवस के संयोजक डॉ. अशोक पलसानिया के नेतृत्व में आयोजित किया जाता रहा है।



समन्वयक

IQAC

Prof. Shalini Saxena

Convener-IQAC

Govt. Maharaj Acharya Sanskrit

College, Jaipur (Raj.) 302015

योग दिवस

21 जून 2023

योग दिवस की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पत्र 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

इसी परंपरा को निरंतर रखते हुए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून 2023 को संस्था की उपप्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं समस्त छात्रों द्वारा 21 जून को योग अभ्यास करके योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें शारीरिक योग गतिविधियों को करते हुए योग दिवस को आहुत किया जाता है। योग दिवस के संयोजक डॉ. अशोक पलसानिया के नेतृत्व में आयोजित किया जाता रहा है।



समन्वयक

IQAC

Prof. Shalini Saxena

Convener IQAC

Govt. Maharaj Acharya Sanshodhan

College, Jaipur (Raj.) 302011

सहाय्य आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद) द्वारा B ग्रेड प्राप्त

राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 20 22









